



आयुक्त का कार्यालय, (अपीलस)  
Office of the Commissioner,



केंद्रीय जीएसटी, अहमदाबाद आयुक्तालय

Central GST, Appeal Commissionerate- Ahmedabad

जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.

CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015

☎: 079-26305065

टेलीफैक्स : 079 - 26305136

क फाइल संख्या : File No : V2(ST)191 /North/Appeals/2018-19 / 10506 to 10510

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.. AHM-EXCUS-002-APP-223-18-19

दिनांक Date : 28/03/2019 जारी करने की तारीख Date of Issue 13/05/2019

श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals)

ग Arising out of Order-in-Original No. 06/AC/Dem/2017-18/RTP Dated 27/02/2018

Issued by **Assistant Commissioner** , Central GST , Div-V , Ahmedabad North.

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता

Name & Address of The Appellants

**M/s UGVCL**

इस अपील आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति उचित प्राधिकारी को अपील निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है:-

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way :-

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील:-

Appeal To Customs Central Excise And Service Tax Appellate Tribunal :-

वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत अपील को निम्न के पास की जा सकती:-


Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :-

पश्चिम क्षेत्रीय पीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ओ. 20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेधाणी नगर, अहमदाबाद-380016

The West Regional Bench of Customs, Excise, Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Mental Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad - 380 016.

(ii) अपीलीय न्यायाधिकरण को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 (1) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9 (1) के अंतर्गत निर्धारित फार्म एस.टी- 5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उसकी प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए (उनमें से एक प्रमाणित प्रति होगी) और साथ में जिस स्थान में न्यायाधिकरण का न्यायपीठ स्थित है, वहाँ के नामित सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के न्यायपीठ के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहाँ रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहाँ रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी।

(ii) The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act 1994 to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules 1994 and Shall be accompany ed by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees. In the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated.



(iii) वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं एवं (2ए) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9 (2ए) के अंतर्गत निर्धारित फार्म एस.टी.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आदेश की प्रतियाँ (OIA) (उसमें से प्रमाणित प्रति होगी) और अपर

आयुक्त, सहायक / उप आयुक्त अथवा अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन करने के निदेश देते हुए आदेश (OIO) की प्रति भेजनी होगी।

(iii) The appeal under sub section (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST-7 as prescribed under Rule 9 (2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise (Appeals)(OIA)(one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Addl. / Joint or Dy. /Asstt. Commissioner or Superintendent of Central Excise & Service Tax (OIO) to apply to the Appellate Tribunal.

2. यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975 की शर्तों पर अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन प्राधिकारी के आदेश की प्रति पर रु 6.50/- पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

2. One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudication authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

3. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1982 में चर्चित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

4. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 34फ के अंतर्गत वित्तीय (संख्या-2) अधिनियम 2014 (2014 की संख्या 29) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है -

(i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम

(ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि

(iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

⇒ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

4. For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;

(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

⇒ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

4(1) इस संदर्भ में, इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

4(1) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute.

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

दूरभाष : 26305065



ORDER IN APPEAL

M/s. Uttar Gujarat Vij Company Ltd. – Bavla Division, Division office, Dholka Road, 66 KV Bavla S/s, Ahmedabad - 382220 [for short - 'appellant'] has filed this appeal against OIO No. 06/AC/Dem/2017-18/RTP dated 27.02.2018, passed by the Assistant Commissioner, CGST & CX, Div – V, Commissionerate, Ahmedabad – North [for short - 'adjudicating authority'].

2. Briefly stating, the facts to the present case is that during the course of an intelligence gathered by DGCEI, Zonal Unit, Ahmedabad it was found that the appellant was issuing electricity consumption charges bills to its consumers and has appointed various Gram Panchayats as collection agency to collect the said bills in the respective areas of such Gram Panchayats or in short availing bill collection services, which is a service as defined under Section 65(B)44 of the Finance Act, 1994. Since Gram Panchayat falls under the definition of "Local Authority" as defined under Section 65B(21) of Finance Act, 1994 and in terms of sub-Rule (d)(i)(E) of Rule 2 of Service Tax Rule, 1994 and Notification No. 30/2012-ST, dated 20.06.2012, as amended, the appellant was liable to pay the service tax under reverse charge mechanism for the services received by them. A notice was issued to the appellant in this regard.

3. This notice was decided by the adjudicating authority, vide the impugned OIO mentioned in para 1, *supra* in which the demand was confirmed, along with interest and penalty as demanded in the notice.

4. Feeling aggrieved, the appellant has filed this appeal on the below mentioned grounds:


- The appellant had paid the Service Tax alongwith interest before the issuance of the show cause notice; and
- The appellant is Gujarat Government owned public sector undertaking hence there cannot be any intention of tax evasion by them;

5. The appellant vide their letter dated 01.01.2019 & 03.01.2019 prayed for the condonation of delay and submitted the details of the communication of the OIO, and presents following facts:

- The appellant is a government company and hence the decisions with regards to any matter are to be taken by approval of the government and the board of the company;
- The person who received the order has left the company since march 2018 and did not even informed the appellant about the receipt of the order;
- The physical copy of the order was received by their peon on 19.03.2018 and was handed over to the incharge officer but that officer was also transferred in very short span of time; and
- The appellant came to know about the order on 03.12.2018.

6. Personal hearing in the matter in respect of the present appeal was held on 27.03.2019, wherein Shri Rutvik Thakkar, CA, appeared on behalf of the appellant. He reiterated the grounds of appeal and submitted that the Service Tax was paid prior to the issuance of the show cause notice.

7. Before I go into the merits of the matter, I find that the appellant had filed the present appeal beyond the period of ninety days from receiving the impugned OIO.



8. I find that the aforementioned appeal have been filed beyond the stipulated period of two months, the time limit specified under section 85(3A) of the Finance Act, 1994. Relevant extracts of Section 85 of Finance Act, 1994, is reproduced below for ease of reference:

*SECTION 85. Appeals to the [Commissioner] of Central Excise (Appeals). —*

*[(1) Any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority subordinate to the <sup>s</sup>[Principal Commissioner of Central Excise or Commissioner of Central Excise] may appeal to the Commissioner of Central Excise (Appeals).]*

*(2) Every appeal shall be in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.*

*(3) .....*

*[(3A) An appeal shall be presented within two months from the date of receipt of the decision or order of such adjudicating authority, made on and after the Finance Bill, 2012 receives the assent of the President, relating to service tax, interest or penalty under this Chapter :*

*Provided that the Commissioner of Central Excise (Appeals) may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of two months, allow it to be presented within a further period of one month.]*

9. I find that the aforementioned appeal has been filed beyond the prescribed time limit of two months. Further, even the delay in filing said appeal is more than one month after the prescribed time limit of two months. As such I am not empowered to condone the delay in this appeal, as it was filed after three months from the date of communication of the impugned order. In view of the foregoing, I reject the appeal on limitation as provided under Section 85 of the Finance Act, 1994.

10. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

10. The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

Date : 28.03.2019

Attested



(Vinod Lukose)  
Superintendent (Appeal),  
Central Tax,  
Ahmedabad.

By RPAD.

To,

M/s. Uttar Gujarat Vij Company Ltd.  
Bavla Division, Division office,  
Dholka Road, 66 KV Bavla S/s,  
Ahmedabad - 382220

Copy to:-

1. The Chief Commissioner, CGST & CX, Ahmedabad Zone .
2. The Principal Commissioner, CGST & CX, Ahmedabad North Commissionerate.
3. The Assistant Commissioner, CGST & CX, Division -V, Ahmedabad North Commissionerate.
4. The Assistant Commissioner, System, CGST & CX, Ahmedabad North Commissionerate.



5. Guard File.
6. P.A.

